

थाना कांट पुलिस ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे 40 लाख रुपये कीमत की 400 ग्राम अफीम की बरामद एवं थाना खुटार एवं थाना कांट पुलिस द्वारा मौके से 60 लीटर कच्ची शराब ,शराब बनाने के उपकरण बरामद तथा करीब 1500 लीटर लहन बरामदशुदा किया गया नष्ट ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर श्री एस0 आनन्द के निर्देशन मे अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करो की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण निर्देशन मे व क्षेत्राधिकारी सदर/पुवायां पर्यवेक्षण मे थाना कांट एवं थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी ।

दिनांक 09.1.2023 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मदनपाल s/o छोटेलाल R/O मो0 नवीपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर को **यूनिटी स्कूल के पास कस्बा कांट से** 400 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री जयशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.1.2023 को मुखबिर की सूचना पर **ग्राम बरेण्डा मे** अभियुक्त के घर के पीछे आम के बाग मे 1.गयादीन पुत्र मेवाराम 2. प्रियांशु पुत्र गयादीन निवासीगण ग्राम बरेण्डा थाना कांट जिला शाहजहाँपुर को अवैध कच्ची शराब की कसीदगी/निर्माण करते हुए मौके पर गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब व कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये तथा 500 लीटर लहन मौके पर नष्ट किया गया । बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त गण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

थानाध्यक्ष थाना खुटार श्री ओमप्रकाश के नेतृत्व मे थाना खुटार पुलिस द्वारा दिनांक 09.01.2023 को मुखबिर की सूचना पर “ **ग्राम टोडरपुर के जंगल से** अभियुक्त 1.इन्द्रजीत पुत्र सुरेन्द्र सिंह 2 गुरमीत पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम मैनिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर के कब्जे करीब 20 लीटर कच्ची शराब ,शराब बनाने के उपकरण बरामद करना तथा करीब 1000 लीटर लहन नष्ट किया गया रात्रि का वक्त होने तथा अंधेरे का फायदा उठाकर दोनो अभियुक्तगण मौके से भाग गये बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मदनपाल s/o छोटेलाल R/O मो0 नवीपुर कस्बा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. गयादीन पुत्र मेवाराम नि0गण ग्राम बरेण्डा थाना कांट जिला शाहजहाँपुर
3. प्रियांशु पुत्र गयादीन नि0गण ग्राम बरेण्डा थाना कांट जिला शाहजहाँपुर

मौके से फरार अभियुक्तों का विवरण:-

1. इन्द्रजीत पुत्र सुरेन्द्र सिंह
2. गुरमीत पुत्र लाल सिंह निवासीगण ग्राम मैनिया थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 15/2022 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम मदनपाल उपरोक्त थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।
2. मु0अ0सं0 16/23 धारा 60(2) आबकारी अधि0 बनाम 1. गयादीन 2. प्रियांशु थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ।
3. मु0अ0सं0 17/23 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 400 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रूपये)
2. 60 लीटर कच्ची शराब
3. शराब बनाने के उपकरण
4. करीब 1000 लीटर लहन नष्ट

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण:-

थाना कांट पुलिस टीम-

एन0डी0पी0एस0 एक्ट-

1. उ0नि0 देशपाल सिंह थाना कांट जिला शाह0पुर
2. HC 143 विजय प्रताप सिंह थाना कांट जिला शाह0पुर
3. HC 430 मनोज वीर थाना कांट जिला शाह0पुर
4. का0 1716 शुभम सिंह थाना कांट जिला शाह0पुर

आबकारी अधिनियम-

1. उ0नि0 सन्तकुमार राठी थाना कांट जिला शाह0पुर
2. का02560 शुभम तेवतिया
3. का0 1227 मनोज कुमार
4. म0का0 2865 शालू सोम
5. म0का0 1663 श्रीकान्ती

थाना खुटार पुलिस टीम-

आबकारी अधिनियम-

1. उ0नि0 श्री रामायण सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर।
2. हे0का0 492 यशवीर सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर ।
3. का0 478 सोनू कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर।
4. का0 877 नेत्रपाल थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर।
5. का0 871 नरवीन कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर ।